



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2012/पौष 19, 1933

No. 36]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2012/PAUSA 19, 1933

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

[आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2012

का.आ. 42(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में एनद्वारा निम्नलिखित ओर संशोधन करती है, अर्थात् :—

“यूनानी” से सार्वधत्त उक्त अनुसूची के भाग II में, “पश्चिम बंगाल” शीर्षक के अंतर्गत, क्रमांक 26 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् कॉलम 1, 2, 3 एवं 4 में, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
पश्चिम बंगाल “27. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता, (पश्चिम बंगाल)	कामिल-ए-तिब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी)	बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी	2002 से 2010 तक— यदि उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने निम्नलिखित कॉलेज में इस अवधि के दौरान उत्तीर्ण की है और अपनी इन्टरशिप पूरी की है, अर्थात् :—  कलकत्ता यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, 8/1, अब्दुल हलीम लेन, कोलकाता”।

[फा. सं. वी-12013/11/2010-आयु.डेस्क/ईपी (आईएम-2)]

विक्रम सिंह गौड़, संयुक्त सचिव

टिप्पण : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित अधिसूचना मख्याआ द्वारा संशोधित किया गया है :—

1. का.आ. सं. 4068 तारीख 30 नवम्बर, 1979
2. का.आ. सं. 2635 तारीख 18 सितम्बर, 1980

3. का.आ. सं. 2323 तारीख 20 अगस्त, 1981
4. का.आ. सं. 2314 तारीख 22 अगस्त, 1981
5. का.आ. सं. 137 तारीख 24 दिसम्बर, 1981



6. का.आ. सं. 638 तारीख 25 जनवरी, 1982
7. का.आ. सं. 7661 तारीख 2 फरवरी, 1982
8. का.आ. सं. 973 तारीख 20 फरवरी, 1982
9. का.आ. सं. 354(अ) तारीख 6 मई, 1983
10. का.आ. सं. 3550 तारीख 5 सितम्बर, 1983
11. का.आ. सं. 804(अ) तारीख 11 नवम्बर, 1983
12. का.आ. सं. 462(अ) तारीख 23 जून, 1984
13. का.आ. सं. 1911 तारीख 17 अप्रैल, 1985
14. का.आ. सं. 2745 तारीख 29 मई, 1985
15. का.आ. सं. 3404 तारीख 5 जुलाई, 1985
16. का.आ. सं. 4057 तारीख 14 अगस्त, 1985
17. का.आ. सं. 5603 तारीख 2 दिसम्बर, 1985
18. का.आ. सं. 5671 तारीख 5 दिसम्बर, 1985
19. का.आ. सं. 888 तारीख 17 फरवरी, 1986
20. का.आ. सं. 1832 तारीख 16 अप्रैल, 1986
21. का.आ. सं. 627 तारीख 2 फरवरी, 1987
22. का.आ. सं. 760 तारीख 25 फरवरी, 1987
23. का.आ. सं. 1030 तारीख 30 मार्च, 1987
24. का.आ. सं. 1946 तारीख 9 जुलाई, 1987
25. का.आ. सं. 3186 तारीख 30 अक्टूबर, 1987
26. का.आ. सं. 1697 तारीख 15 अप्रैल, 1988
27. का.आ. सं. 1504 तारीख 22 अप्रैल, 1988
28. का.आ. सं. 1041 तारीख 6 अप्रैल, 1989
29. का.आ. सं. 1910 तारीख 21 जुलाई, 1989
30. का.आ. सं. 2177 तारीख 14 अगस्त, 1989
31. का.आ. सं. 2594 तारीख 21 सितम्बर, 1989
32. का.आ. सं. 969 तारीख 29 नवम्बर, 1989
33. का.आ. सं. 2552 तारीख 22 अगस्त, 1990
34. का.आ. सं. 3246 तारीख 31 अक्टूबर, 1990
35. का.आ. सं. 2669 तारीख 29 अगस्त, 1991
36. का.आ. सं. 630 तारीख 17 जनवरी, 1992
37. का.आ. सं. 1435 तारीख 7 मई, 1992
38. का.आ. सं. 3110 तारीख 11 अक्टूबर, 1994
39. का.आ. सं. 3375 तारीख 18 अक्टूबर, 1996
40. का.आ. सं. 214 तारीख 9 जनवरी, 1997
41. का.आ. सं. 923(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1997
42. का.आ. सं. 518 तारीख 17 फरवरी, 1998
43. का.आ. सं. 170(अ), तारीख 6 मार्च, 1998
44. का.आ. सं. 1792 तारीख 25 जून, 1998
45. का.आ. सं. 1793 तारीख 28 अगस्त, 1998
46. का.आ. सं. 876(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 1998
47. का.आ. सं. 1020(अ), तारीख 1 दिसम्बर, 1998
48. का.आ. सं. 116(अ), तारीख 17 फरवरी, 1999
49. का.आ. सं. 117(अ), तारीख 17 फरवरी, 1999
50. का.आ. सं. 303(अ), तारीख 6 मई, 1999
51. का.आ. सं. 403(अ), तारीख 31 मई, 1999
52. का.आ. सं. 378(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2000
53. का.आ. सं. 820(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2000
54. का.आ. सं. 1008(अ), तारीख 9 नवम्बर, 2000
55. का.आ. सं. 116(अ), तारीख 7 फरवरी, 2001
56. का.आ. सं. 486(अ), तारीख 30 मई, 2001
57. का.आ. सं. 1017(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001
58. का.आ. सं. 1018(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001
59. का.आ. सं. 1019(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2001
60. का.आ. सं. 1020(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2001
61. का.आ. सं. 516(अ), तारीख 16 मई, 2002
62. का.आ. सं. 951(अ), तारीख 4 सितम्बर, 2002
63. का.आ. सं. 1166(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2003
64. का.आ. सं. 1180(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2003
65. का.आ. सं. 1181(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2003
66. का.आ. सं. 1289(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2003
67. का.आ. सं. 131(अ), तारीख 28 जनवरी, 2004
68. का.आ. सं. 265(अ), तारीख 24 फरवरी, 2004
69. का.आ. सं. 481(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2004
70. का.आ. सं. 534(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2004
71. का.आ. सं. 744(अ), तारीख 29 जून, 2004
72. का.आ. सं. 984(अ), तारीख 2 सितम्बर, 2004
73. का.आ. सं. 191(अ), तारीख 8 फरवरी, 2005
74. का.आ. सं. 1521(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2005
75. का.आ. सं. 1679(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2005
76. का.आ. सं. 1758(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2005
77. का.आ. सं. 540(अ), तारीख 13 अप्रैल, 2006
78. का.आ. सं. 1368(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006
79. का.आ. सं. 1472(अ), तारीख 11 सितम्बर, 2006
80. का.आ. सं. 1485(अ), तारीख 12 सितम्बर, 2006
81. का.आ. सं. 1809(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2006
82. का.आ. सं. 2017(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2006
83. का.आ. सं. 33(अ), तारीख 11 जनवरी, 2007
84. का.आ. सं. 1135(अ), तारीख 6 जुलाई, 2007
85. का.आ. सं. 1175(अ), तारीख 10 जुलाई, 2007
86. का.आ. सं. 1700(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2007
87. का.आ. सं. 2185(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2008
88. का.आ. सं. 2261(अ), तारीख 24 सितम्बर, 2008
89. का.आ. सं. 1190(अ), तारीख 11 मई, 2009
90. का.आ. सं. 2217(अ), तारीख 27 अगस्त, 2009



- |  |  |
|--|--|
| 91. का.आ. सं. 2406(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2009 | 99. का.आ. सं. 2477(अ), तारीख 8 अक्टूबर, 2010   |
| 92. का.आ. सं. 3001(अ), तारीख 25 नवम्बर, 2009 | 100. का.आ. सं. 2971(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2010 |
| 93. का.आ. सं. 3121(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2009 | 101. का.आ. सं. 1451(अ), तारीख 24 जून, 2011     |
| 94. का.आ. सं. 1523(अ), तारीख 14 जून, 2010    | 102. का.आ. सं. 1604(अ), तारीख 6 जुलाई, 2011    |
| 95. का.आ. सं. 1517(अ), तारीख 23 जून, 2010    | 103. का.आ. सं. 1640(अ), तारीख 18 जुलाई, 2011   |
| 96. का.आ. सं. 1532(अ), तारीख 25 जून, 2010    | 104. का.आ. सं. 2680(अ), तारीख 15 नवम्बर, 2011  |
| 97. का.आ. सं. 1605(अ), तारीख 2 जुलाई, 2010   | 105. का.आ. सं. 2717(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2011  |
| 98. का.आ. सं. 1973(अ), तारीख 6 अगस्त, 2010   |  |

**MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE****[Department of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)]****NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd January, 2012

**S.O. 42(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), the Central Government after consulting the Central Council of Indian Medicine, hereby makes the following further amendments in the Second Schedule to the said Act, namely:—

In Part II of the said Schedule relating to “Unani”, under the heading “West Bengal”, in columns 1, 2, 3 and 4 after serial number 26 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall respectively be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
West Bengal “27. University of Calcutta, Kolkata WB.	Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery)	Bachelor of Unani Medicine and Surgery	From 2002 up to 2010— if granted to the students who have passed out and completed their internship during this period from the following college, namely:— Calcutta Unani Medical College and Hospital, 8/1, Abdul Halim Lane, Kolkata”

[F. No. V-12013/11/2011-Ay. Desk/EP(IM-2)]

VIKRAM SINGH GAUR, Jt. Secy.

**Note:—** The Second Schedule to the Indian Medicine Central Act, 1970 (48 of 1970) has subsequently been amended *vide* notification numbers:—

- |  |   |
|--|---|
| 1. S.O. No. 4068, dated the 30th November, 1979    | 19. S.O. No. 888 dated the 17th February, 1986    |
| 2. S.O. No. 2635, dated the 18th September, 1980   | 20. S.O. No. 1832, dated the 16th April, 1986     |
| 3. S.O. No. 2323, dated the 20th August, 1981      | 21. S.O. No. 627, dated the 2nd February, 1987    |
| 4. S.O. No. 2314, dated the 22nd August, 1981      | 22. S.O. No. 760, dated the 25th February, 1987   |
| 5. S.O. No. 137, dated the 24th December, 1981     | 23. S.O. No. 1030, dated the 30th March, 1987     |
| 6. S.O. No. 638, dated the 25th January, 1982      | 24. S.O. No. 1946, dated the 9th July, 1987       |
| 7. S.O. No. 7661, dated the 2nd February, 1982     | 25. S.O. No. 3186, dated the 30th October, 1987   |
| 8. S.O. No. 973, dated the 20th February, 1982     | 26. S.O. No. 1697, dated the 15th April, 1988     |
| 9. S.O. No. 354(E), dated the 6th May, 1983        | 27. S.O. No. 1504, dated the 22nd April, 1988     |
| 10. S.O. No. 3550, dated the 5th September, 1983   | 28. S.O. No. 1041, dated the 6th April, 1989      |
| 11. S.O. No. 804(E), dated the 11th November, 1983 | 29. S.O. No. 1910, dated the 21st July, 1989      |
| 12. S.O. No. 462(E), dated the 23rd June, 1984     | 30. S.O. No. 2177, dated the 14th August, 1989    |
| 13. S.O. No. 1911, dated the 17th April, 1985      | 31. S.O. No. 2594, dated the 21st September, 1989 |
| 14. S.O. No. 2745, dated the 29th May, 1985        | 32. S.O. No. 969, dated the 29th November, 1989   |
| 15. S.O. No. 3404, dated the 5th July, 1985        | 33. S.O. No. 2552, dated the 22nd August, 1990    |
| 16. S.O. No. 4057, dated the 14th August, 1985     | 34. S.O. No. 3246, dated the 31st October, 1990   |
| 17. S.O. No. 5603, dated the 2nd December, 1985    | 35. S.O. No. 2669, dated the 29th August, 1991    |
| 18. S.O. No. 5671, dated the 5th December, 1985    | 36. S.O. No. 630, dated the 17th January, 1992    |



37. S.O. No. 1435, dated the 7th May, 1992
38. S.O. No. 3110, dated the 11th October, 1994
39. S.O. No. 3375, dated the 18th October, 1996
40. S.O. No. 214, dated the 9th January, 1997
41. S.O. No. 923(E), dated the 29th December, 1997
42. S.O. No. 518, dated the 17th February, 1998
43. S.O. No. 170(E), dated the 6th March, 1998
44. S.O. No. 1792, dated the 25th June, 1998
45. S.O. No. 1793, dated the 28th August, 1998
46. S.O. No. 876(E), dated the 25th October, 1998
47. S.O. No. 1020(E), dated the 1st December, 1998
48. S.O. No. 116(E), dated the 17th February, 1999
49. S.O. No. 117(E), dated the 17th February, 1999
50. S.O. No. 303(E), dated the 6th May, 1999
51. S.O. No. 403(E), dated the 31st May, 1999
52. S.O. No. 378(E), dated the 13th April, 2000
53. S.O. No. 820(E), dated the 12th September, 2000
54. S.O. No. 1008(E), dated the 9th November, 2000
55. S.O. No. 116(E), dated the 7th February, 2001
56. S.O. No. 486(E), dated the 30th May, 2001
57. S.O. No. 1017(E), dated the 8th October, 2001
58. S.O. No. 1018(F), dated the 8th October, 2001
59. S.O. No. 1019(E), dated the 9th October, 2001
60. S.O. No. 1020(E), dated the 8th October, 2001
61. S.O. No. 516(E), dated the 16th May, 2002
62. S.O. No. 951(E), dated the 4th September, 2002
63. S.O. No. 1166(E), dated the 29th September, 2003
64. S.O. No. 1180(E), dated the 7th October, 2003
65. S.O. No. 1181(E), dated the 7th October, 2003
66. S.O. No. 1289(E), dated the 4th November, 2003
67. S.O. No. 131(E), dated the 28th January, 2004
68. S.O. No. 265(E), dated the 24th February, 2004
69. S.O. No. 481(E), dated the 6th April, 2004
70. S.O. No. 534(E), dated the 22nd April, 2004
71. S.O. No. 744(E), dated the 29th June, 2004
72. S.O. No. 984(E), dated the 2nd September, 2004
73. S.O. No. 191(E), dated the 8th February, 2005
74. S.O. No. 1521(E), dated the 20th October, 2005
75. S.O. No. 1679(E), dated the 25th November, 2005
76. S.O. No. 1758(E), dated the 10th December, 2005
77. S.O. No. 540(E), dated the 13th April, 2006
78. S.O. No. 1368(E), dated the 23rd August, 2006
79. S.O. No. 1472(E), dated the 11th September, 2006
80. S.O. No. 1485(E), dated the 12th September, 2006
81. S.O. No. 1809(E), dated the 20th October, 2006
82. S.O. No. 2017(E), dated the 23rd November, 2006
83. S.O. No. 33(E), dated the 11th January, 2007
84. S.O. No. 1135(E), dated the 6th July, 2007
85. S.O. No. 1175(E), dated the 10th July, 2007
86. S.O. No. 1700(E), dated the 27th September, 2007
87. S.O. No. 2185(E), dated the 8th September, 2008
88. S.O. No. 2261(E), dated the 24th September, 2008
89. S.O. No. 1190(E), dated the 11th May, 2009
90. S.O. No. 2217(E), dated the 27th August, 2009
91. S.O. No. 2406(E), dated the 7th September, 2009
92. S.O. No. 3001(E), dated the 25th November, 2009
93. S.O. No. 3121(E), dated the 5th December, 2009
94. S.O. No. 1523(E), dated the 14th June, 2010
95. S.O. No. 1517(E), dated the 23rd June, 2010
96. S.O. No. 1532(E), dated the 25th June, 2010
97. S.O. No. 1605(E), dated the 2nd July, 2010
98. S.O. No. 1973(E), dated the 6th August, 2010
99. S.O. No. 2477(E), dated the 8th October, 2010
100. S.O. No. 2971(E), dated the 16th December, 2010
101. S.O. No. 1451(E), dated the 24th June, 2011
102. S.O. No. 1604(E), dated the 6th July, 2011
103. S.O. No. 1640(E), dated the 18th July, 2011
104. S.O. No. 2680(E), dated the 15th November, 2011
103. S.O. No. 2717(E), dated the 28th November, 2011